

स्कैन कर तैयार किए जा रहे थे नकली नोट

Publish Date: Sat, 05 Sep 2020 10:58 PM (IST)



दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों के मामले में जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपित को रिमांड पर लेकर छापा मारा। इस दौरान आरोपित के

पीलीभीत, जेएनएन : दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों के मामले में जिले के जहानाबाद थाना क्षेत्र के तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपित को रिमांड पर लेकर छापा मारा। इस दौरान आरोपित के मकान से स्कैनर, प्रिटर के साथ साथ स्कैन कर तैयार किए गए 12 हजार रुपये भी बरामद किए। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से अभी तक इस मामले में कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन अब तक की कार्रवाई से यह तो साफ हो रहा है कि आरोपितों के पास बरामद नकली नोट स्कैन कर तैयार किए गए थे। फिलहाल स्थानीय पुलिस भी नकली नोटों के नेटवर्क की तह में जाने का प्रयास कर रही है।

जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव परैवा वैश्य निवासी मोहम्मद अजीम खां तथा अकील अहमद को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रविवार को आनंद विहार बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर एक लाख बीस हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। बाद में मंगलवार को दोनों आरोपितों को रिमांड पर लेकर दिल्ली पुलिस जहानाबाद थाने पहुंची। दिनभर की पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बुधवार की शाम बरेली जिले के बहेड़ी थाना क्षेत्र में दबिश देकर डा. अकील को गिरफ्तार किया था। डॉ. अकील भी गांव परैवा वैश्य का रहने वाला है। डॉ. अकील का एक मकान पीलीभीत शहर की आवास विकास कालोनी में है। शुक्रवार को दिल्ली पुलिस आरोपित डॉ. अकील को लेकर यहां पहुंची थी। दिल्ली पुलिस ने डॉ. अकील के मकान में छापा मारकर स्कैनर, प्रिटर के साथ साथ बारह हजार रुपये के नकली नोट भी बरामद किए थे। दिल्ली पुलिस ने उक्त छापेमारी के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचना नहीं दी थी। इधर, शनिवार को स्थानीय पुलिस अफसरों ने भी मामले की गंभीरता के मद्देनजर जिले में नकली नोट बनाने के नेटवर्क की तह तक पहुंचने के लिए काम शुरू कर दिया है। जिसके तहत नकली नोटों के धंधे में पूर्व में गिरफ्तार किए गए आरोपितों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है।

इन्सेट महज पंद्रह मिनट रुकी थी दिल्ली पुलिस

आवास विकास कालोनी में स्थित डॉ. अकील के मकान में दिल्ली पुलिस ने महज पंद्रह मिनट में ही स्कैनर, प्रिटर, नकली नोट आदि बरामद कर लिए थे। सिविल ड्रेस में स्पेशल सेल के लोगों को आसपास के लोग समझ भी नहीं पाए। वैसे भी मकान मालिक डॉ. अकील को साथ देख लोग यही समझे कि उसके रिश्तेदार वगैरा होंगे। नकली नोट मामले में डॉ. अकील की गिरफ्तारी का पता लगने पर अब आसपास के लोग भी हतप्रभ हैं। हालांकि आसपास के लोग इस बारे में कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं।

इन्सेट फरवरी में स्कैन वाले नोटों का पकड़ा था मामला

न्यूरिया थाना क्षेत्र में विगत फरवरी माह में भी ऐसा ही मामला पकड़ा गया था। जब दो लोगों ने पेट्रोल पंप पर स्कैन कर तैयार 50 रुपये के नोट चलाने का प्रयास किया था। उस वक्त पुलिस ने बरेली जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव अलहपुर निवासी पांच लोगों को गिरफ्तार कर 50-50 के 84 नकली नोट बरामद किए थे। ---वर्जन-

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नकली नोटों के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। जिनमें एक आरोपित डॉ. अकील को रिमांड पर लेकर पुलिस ने बीते दिन आवास विकास कालोनी में स्थित मकान में छापा मारकर स्कैनर, प्रिटर, बारह हजार रुपये के नकली नोट बरामद किए थे। आरोपितों द्वारा स्कैन कर नोट तैयार किए जाने का तथ्य प्रकाश में आ रहा है। नकली नोटों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है।